

विद्याभवन , बालिका विद्यापीठ , लखीसराय

रूपम कुमारी , वर्ग-दशम् , विषय-हिन्दी

दिनांक- २६/७/२०

॥ अभ्यास-सामग्री ॥

सुप्रभात बच्चों, कल की कक्षा में दिए गए

गृहकार्य को आपने पूरा कर लिया होगा ।

आज की कक्षा में भी पुनरावृत्ति के तहत

वाक्य की ही चर्चा होगी ।

॥ वाक्य ॥

वाक्य के अंग : उद्देश्य एवं विधेय

आज की कक्षा में विधेय चर्चा का विषय

रहेगा ।

किसी भी वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो बातें की जाती हैं, उसे विधेय कहते हैं।

जैसे - धर्मद्र ने प्रतियोगिता में भाग लिया।

इस वाक्य में धर्मद्र उद्देश्य है और भाग लेना विधेय है अर्थात्, -क्रिया ही विधेय है।

अब आपके मन में सवाल उठा रहा होगा कि प्रतियोगिता में क्या है ? इस चीज को हम उद्देश्य -विस्तार के अंतर्गत समझेंगे।

विधेय-विस्तार: विधेय-विस्तार के अंतर्गत - क्रिया -विस्तार, कर्म -विस्तार योजक -चिन्ह इत्यादि आते हैं। जैसे -

सीता -पुस्तक लिखती है।

इस वाक्य में - सीता उद्देश्य है, लिखती है विधेय है तथा -पुस्तक विधेय-विस्तार है।

अब इन उदाहरणों में उद्देश्य , विधेय तथा विधेय-विस्तार को छाँटकर अलग करें -:

राधिका लिखकर ही उठेगी ।

विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं ।

वह धीरे-धीरे खेलता है ।

अब हम वाक्य के भेदों की चर्चा संक्षेपण में करेंगे ।

. रचना की दृष्टिकोण से वाक्य के तीन भेद होते हैं -

सरल वाक्य , संयुक्त वाक्य , मिश्र वाक्य

सरल वाक्य- जिन वाक्यों में एक मुख्य - क्रिया होती है , उसे सरल वाक्य कहते हैं ।

लेकिन आपके मन में यह सवाल उठा रहा होगा कि ये मुख्य क्रिया क्या है ?

हम नीचे दिए गए उदाहरण को देखें :

वह सोकर उठा – इस वाक्य में सोकर पूर्वकालिक क्रिया है और उठा मुख्य क्रिया है ।  
अतः हमने देखा कि एक ही मुख्य-क्रिया होने के कारण यह सरल वाक्य है ।

एक और उदाहरण देखें

उसने रोटी खायी ।

वह विद्यालय जाता है ।

वह खाता जाता है ।

उपरोक्त तीनों वाक्यों में हमने देखा कि पहले वाक्य में एक ही क्रियापद है ।

दूसरे वाक्य में दो -क्रिया पद – जाता और है दो क्रियापद है , यानि जाता मुख्य क्रिया और है सहायक क्रिया ।

तीसरे वाक्य में खाता , जाता और है तीन क्रियापद है लेकिन मुख्य क्रिया एक ही है - खाता और शेष दोनों सहायक क्रिया है ।

अतः हमने देखा कि कई क्रियापद होने के बावजूद मुख्य क्रिया एक ही है , इसलिए सारे वाक्य सरल वाक्य के उदाहरण हैं ।

अब बताइएगा कि आप कहाँ नहीं समझ रहे हैं ?

सरल वाक्य के एक और एक से अधिक क्रिया पद वाले कम से कम पाँच वाक्य को लिखें ।

ध्यान रहे क्रियापद की संख्या तीन तक ही सीमित नहीं रह सकती यह बढ़ भी सकती है ।  
जैसे - वह पढ़ता चला जा रहा था ।

इस वाक्य में पाँच क्रियापद हैं, फिर भी यह सरल वाक्य का ही उदाहरण है ।

शेष कल 